



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2487]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 6, 2014/अग्रहायण 15, 1936

No. 2487]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 6, 2014/ AGRAHAYANA 15, 1936

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

(आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, नवम्बर, 2014

**का.आ. 3084(अ).**—केंद्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् एत द्वारा उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

“आयुर्वेद और सिद्ध” संबंधी भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची के भाग-1 में, “महाराष्ट्र” शीर्षक के अधीन, क्रम संख्यांक 63अ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के समक्ष कॉलम (4) में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी और अंतःस्थापित की गई मानी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
			“2009 से 31 दिसम्बर, 2014 तक; यदि पद्मश्री डॉ. डी. वाई. पाटिल आयुर्वेद एवं अनुसंधान महाविद्यालय, नेरूल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में वर्ष 2006-07, 2007-2008 और 2008-09 में केंद्रीय सरकार की अनुमति से प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है।”

[फा. सं. बी. 12013/02/2012-ईपी(आईएम-2)]

ए. के. गनेड़ीवाला, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणी:** भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में प्रथम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का. आ. 4068, तारीख 30 नवम्बर, 1979 के अंतर्गत किया गया था और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2056(अ) तारीख 25 जुलाई, 2014 के अंतर्गत किया गया।

1.	का.आ.सं. 2635 तारीख 18 सितंबर 1980	36.	का.आ.सं. 1435 तारीख 7 मई 1992
2.	का.आ.सं. 2323 तारीख 20 अगस्त 1981	37.	का.आ.सं. 3110 तारीख 11 अक्टूबर 1994
3.	का.आ.सं. 2314 तारीख 22 अगस्त 1981	38.	का.आ.सं. 3375 तारीख 18 अक्टूबर 1996
4.	का.आ.सं. 137 तारीख 24 दिसम्बर 1981	39.	का.आ.सं. 214 तारीख 9 जनवरी 1997
5.	का.आ.सं. 638 तारीख 25 जनवरी 1982	40.	का.आ.सं. 923(अ) तारीख 29 दिसंबर 1997
6.	का.आ.सं. 7661 तारीख 2 फरवरी 1982	41.	का.आ.सं. 518 तारीख 17 फरवरी 1998
7.	का.आ.सं. 973 तारीख 20 फरवरी 1982	42.	का.आ.सं. 170(अ) तारीख 6 मार्च 1998
8.	का.आ.सं. 354(अ) तारीख 6 मई 1983	43.	का.आ.सं. 1792 तारीख 25 जून 1998
9.	का.आ.सं. 3550 तारीख 5 सितंबर 1983	44.	का.आ.सं. 1793 तारीख 28 अगस्त 1998
10.	का.आ.सं. 804 (अ) तारीख 11 नवंबर 1983	45.	का.आ.सं. 876(अ) तारीख 25 अक्टूबर 1998
11.	का.आ.सं. 462 (अ) तारीख 23 जून 1984	46.	का.आ.सं. 1020(अ) तारीख 1 दिसंबर 1998
12.	का.आ.सं. 1911 तारीख 17 अप्रैल 1985	47.	का.आ.सं. 116(अ) तारीख 17 फरवरी 1999
13.	का.आ.सं. 2745 तारीख 29 मई 1985	48.	का.आ.सं. 117(अ) तारीख 17 फरवरी 1999
14.	का.आ.सं. 3404 तारीख 5 जुलाई 1985	49.	का.आ.सं. 303(अ) तारीख 6 मई 1999
15.	का.आ.सं. 4057 तारीख 14 अगस्त 1985	50.	का.आ.सं. 403(अ) तारीख 31 मई 1999
16.	का.आ.सं. 5603 तारीख 2 दिसंबर 1985	51.	का.आ.सं. 378(अ) तारीख 13 अप्रैल 2000
17.	का.आ.सं. 5671 तारीख 5 दिसंबर 1985	52.	का.आ.सं. 820(अ) तारीख 12 सितंबर 2000
18.	का.आ.सं. 888 तारीख 17 फरवरी 1986	53.	का.आ.सं. 1008(अ) तारीख 09 नवंबर 2000
19.	का.आ.सं. 1832 तारीख 16 अप्रैल 1986	54.	का.आ.सं. 116(अ) तारीख 07 फरवरी 2001
20.	का.आ.सं. 627 तारीख 2 फरवरी 1987	55.	का.आ.सं. 486(अ) तारीख 30 मई 2001.
21.	का.आ.सं. 760 तारीख 25 फरवरी 1987	56.	का.आ.सं. 1017(अ) तारीख 8 अक्टूबर 2001
22.	का.आ.सं. 1030 तारीख 30 मार्च 1987	57.	का.आ.सं. 1018(अ) तारीख 8 अक्टूबर 2001
23.	का.आ.सं. 1946 तारीख 9 जुलाई 1987	58.	का.आ.सं. 1019(अ) तारीख 9 अक्टूबर 2001
24.	का.आ.सं. 3186 तारीख 30 अक्टूबर 1987	59.	का.आ.सं. 1020(अ) तारीख 8 अक्टूबर 2001
25.	का.आ.सं. 1697 तारीख 15 अप्रैल 1988	60.	का.आ.सं. 516(अ) तारीख 16 मई 2002
26.	का.आ.सं. 1504 तारीख 22 अप्रैल 1988	61.	का.आ.सं. 951(अ) तारीख 4 सितंबर 2002
27.	का.आ.सं. 1041 तारीख 6 अप्रैल 1989	62.	का.आ.सं. 1166(अ) तारीख 29 सितंबर 2003
28.	का.आ.सं. 1910 तारीख 21 जुलाई 1989	63.	का.आ.सं. 1180(अ) तारीख 7 अक्टूबर 2003
29.	का.आ.सं. 2177 तारीख 14 अगस्त 1989	64.	का.आ.सं. 1181(अ) तारीख 7 अक्टूबर 2003
30.	का.आ.सं. 2594 तारीख 21 सितंबर 1989	65.	का.आ.सं. 1289(अ) तारीख 4 नवंबर 2003
31.	का.आ.सं. 969 तारीख 29 नवंबर 1989	66.	का.आ.सं. 131(अ) तारीख 28 जनवरी 2004
32.	का.आ.सं. 2552 तारीख 22 अगस्त 1990	67.	का.आ.सं. 265(अ) तारीख 24 फरवरी 2004
33.	का.आ.सं. 3246 तारीख 31 अक्टूबर 1990	68.	का.आ.सं. 481(अ) तारीख 6 अप्रैल 2004
34.	का.आ.सं. 2669 तारीख 29 अगस्त 1991	69.	का.आ.सं. 534(अ) तारीख 22 अप्रैल 2004
35.	का.आ.सं. 630 तारीख 17 जनवरी 1992	70.	का.आ.सं. 744(अ) तारीख 29 जून 2004

71.	का.आ.सं. 984(अ) तारीख 2 सितंबर 2004	105.	का.आ.सं. 42(अ) तारीख 2 जनवरी, 2012
72.	का.आ.सं. 191(अ) तारीख 8 फरवरी 2005	106.	का.आ.सं. 82(अ) तारीख 14 जनवरी, 2012
73.	का.आ.सं. 1521(अ) तारीख 20 अक्टूबर, 2005	107.	का.आ.सं. 566(अ) तारीख 15 मार्च, 2012

74.	का.आ.सं.1679 (अ) तारीख 25 नवंबर 2005	108.	का.आ.सं.565(अ) तारीख 16 मार्च, 2012
75.	का.आ.सं. 1758 (अ) तारीख 10 दिसंबर, 2005	109.	का.आ.सं. 2811(अ) तारीख 26 नवम्बर, 2012
76.	का.आ.सं. 540 (अ) तारीख 13 अप्रैल, 2006	110.	का.आ.सं. 83(अ) तारीख 28 दिसम्बर, 2012
77.	का.आ.सं. 1368 (अ) तारीख 23 अगस्त, 2006	111.	का.आ.सं. 2366(अ) तारीख 6 अगस्त, 2013
78.	का.आ.सं. 1472 (अ) तारीख 11 सितंबर, 2006	112.	का.आ.सं. 1447(अ) तारीख 30 मई, 2014
79.	का.आ.सं. 1485 (अ) तारीख 12 सितंबर, 2006	113.	का.आ.सं. 1853(अ) तारीख 8 जुलाई, 2014
80.	का.आ.सं. 1809 (अ) तारीख 20 अक्टूबर, 2006	114.	का.आ.सं. 2056(अ) तारीख 25 जुलाई, 2014
81.	का.आ.सं. 2017 (अ) तारीख 23 नवंबर, 2006	115.	जारी है.....
82.	का.आ.सं. 33 (अ) तारीख 11 जनवरी 2007		
83.	का.आ.सं. 1135 (अ) तारीख 6 जुलाई 2007		
84.	का.आ.सं. 1175 (अ) तारीख 10 जुलाई 2007		
85.	का.आ.सं. 1700 (अ) तारीख 27 सितंबर, 2007		
86.	का.आ.सं. 2185 (अ) तारीख 8 सितंबर, 2008.		
87.	का.आ.सं. 2261(अ) तारीख 24 सितंबर, 2008		
88.	का.आ.सं. 1190(अ) तारीख 11 मई, 2009		
89.	का.आ.सं. 2217(अ) तारीख 27 अगस्त, 2009		
90.	का.आ.सं. 2406 (अ) तारीख 7 सितंबर, 2009		
91.	का.आ.सं. 3001(अ) तारीख 25 नवंबर, 2009		
92.	का.आ.सं. 3121(अ) तारीख 5 दिसंबर, 2009		
93.	का.आ.सं. 1523(अ) तारीख 14 जून, 2010		
94.	का.आ.सं. 1517(अ) तारीख 23 जून, 2010		
95.	का.आ.सं. 1532(अ) तारीख 25 जून, 2010		
96.	का.आ.सं. 1605(अ) तारीख 2 जुलाई, 2010		
97.	का.आ.सं. 1973(अ) तारीख 6 अगस्त, 2010		
98.	का.आ.सं. 2477(अ) तारीख 8 अक्टूबर, 2010		
99.	का.आ.सं. 2971(अ) तारीख 16 दिसंबर, 2010		
100.	का.आ.सं.1451(अ) तारीख 24 जून, 2011		
101.	का.आ.सं.1604(अ) तारीख 6 जुलाई, 2011		
102.	का.आ.सं.1640 (अ) तारीख 18 जुलाई, 2011		
103.	का.आ.सं.2680(अ) तारीख 15 नवम्बर, 2011		
104.	का.आ.सं.2717(अ) तारीख 28 नवम्बर, 2011		

### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the November, 2014

**S.O. 3084(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:-

In Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970, in Part-I relating to “Ayurveda and Siddha”, under the heading “Maharashtra”, against serial number 63 J and the entries relating thereto, the following entries in column (4) shall be substituted and shall be deemed to have been substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>“From 2009 to the 31<sup>st</sup> December, 2014.</p> <p>If awarded to the students who had been admitted with the permission of the Central Government in the years 2006-07, 2007-08 and 2008-09 in Padmashri Dr. D. Y. Patil College of Ayurveda and Research, Nerul, Navi Mumbai, Maharashtra”.</p>

[F. No. V.12013/02/2012-EP (IM-2)]

A. K. GANERIWALA, Jt. Secy.

**Footnote:-**The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 was first amended vide notification no. SO No. 4068, dated the 30th November, 1979 and last amended vide notification no. SO No. 2056(E) dated the 25th July, 2014.

1.	S.O. No. 2635 dated the 18 <sup>th</sup> September, 1980	31.	S.O. No. 969 dated the 29 <sup>th</sup> November, 1989
2.	S.O. No. 2313 dated the 20 <sup>th</sup> August, 1981	32.	S.O. No. 2552 dated the 22 <sup>nd</sup> August, 1990
3.	S.O. No. 2314 dated the 22 <sup>nd</sup> August, 1981	33.	S.O. No. 3246 dated the 31 <sup>st</sup> October, 1990
4.	S.O. No. 137 dated the 24 <sup>th</sup> December, 1981	34.	S.O. No. 2669 dated the 29 <sup>th</sup> August, 1991
5.	S.O. No. 638 dated the 25 <sup>th</sup> January, 1982	35.	S.O. No. 630 dated the 17 <sup>th</sup> January, 1992
6.	S.O. No. 661 dated the 2 <sup>nd</sup> February, 1982	36.	S.O. No. 1435 dated the 7 <sup>th</sup> May, 1992
7.	S.O. No. 973 dated the 20 <sup>th</sup> February, 1982	37.	S.O. No. 3110 dated the 11 <sup>th</sup> October, 1994
8.	S.O. No. 354(E) dated the 6 <sup>th</sup> May, 1983	38.	S.O. No. 3375 dated the 18 <sup>th</sup> October, 1996
9.	S.O. No. 3550 dated the 5 <sup>th</sup> September, 1983	39.	S.O. No. 214 dated the 9 <sup>th</sup> January, 1997
10.	S.O. No. 804 (E) dated the 11 <sup>th</sup> November S.O No.1983	40.	S.O. No. 923(E) dated the 29 <sup>th</sup> December, 1997
11.	S.O. No. 462 (E) dated the 23 <sup>rd</sup> June, 1984	41.	S.O. No. 518 dated the 17 <sup>th</sup> February, 1998
12.	S.O. No. 1911 dated the 17 <sup>th</sup> April, 1985	42.	S.O. No. 170(E) dated the 6 <sup>th</sup> March, 1998
13.	S.O. No. 2745 dated the 29 <sup>th</sup> May, 1985	43.	S.O. No. 1792 dated the 25 <sup>th</sup> June, 1998
14.	S.O. No. 3404 dated the 5 <sup>th</sup> July, 1985	44.	S.O. No. 1793 dated the 28 <sup>th</sup> August, 1998
15.	S.O. No. 4057 dated the 14 <sup>th</sup> August, 1985	45.	S.O. No. 876(E) dated the 5 <sup>th</sup> October, 1998
16.	S.O. No. 5603 dated the 2 <sup>nd</sup> December, 1985	46.	S.O. No. 1020(E) dated the 1 <sup>st</sup> December, 1998
17.	S.O. No. 5671 dated the 5 <sup>th</sup> December, 1985	47.	S.O. No. 116(E) dated the 17 <sup>th</sup> February, 1999
18.	S.O. No. 822 dated the 17 <sup>th</sup> February, 1986	48.	S.O. No. 117(E) dated the 17 <sup>th</sup> February, 1999
19.	S.O. No. 1832 dated the 16 <sup>th</sup> April, 1986	49.	S.O. No. 303(E) dated the 6 <sup>th</sup> May, 1999
20.	S.O. No. 627 dated the 2 <sup>nd</sup> February, 1987	50.	S.O. No. 403(E) dated the 31 <sup>st</sup> May, 1999
21.	S.O. No. 760 dated the 25 <sup>th</sup> February, 1987	51.	S.O. No. 378(E) dated the 13 <sup>th</sup> April, 2000
22.	S.O. No. 1030 dated the 30 <sup>th</sup> March, 1987	52.	S.O. No. 820(E) dated the 12 <sup>th</sup> September, 2000
23.	S.O. No. 1946 dated the 9 <sup>th</sup> July, 1987	53.	S.O. No. 1008(E) dated the 09 <sup>th</sup> November, 2000
24.	S.O. No. 3186 dated the 30 <sup>th</sup> October, 1987	54.	S.O. No. 116(E) dated the 07 <sup>th</sup> February, 2001
25.	S.O. No. 1697 dated the 15 <sup>th</sup> April, 1988	55.	S.O. No. 486(E) dated the 30 <sup>th</sup> May, 2001
26.	S.O. No. 1504 dated the 22 <sup>nd</sup> April, 1988	56.	S.O. No. 1017(E) dated the 8 <sup>th</sup> October, 2001
27.	S.O. No. 1040 dated the 6 <sup>th</sup> April, 1989	57.	S.O. No. 1018(E) dated the 8 <sup>th</sup> October, 2001
28.	S.O. No. 1910 dated the 21 <sup>st</sup> July, 1989	58.	S.O. No. 1019(E) dated the 8 <sup>th</sup> October, 2001
29.	S.O. No. 2177 dated the 14 <sup>th</sup> August, 1989	59.	S.O. No. 1020(E) dated the 8 <sup>th</sup> October, 2001
30.	S.O. No. 2594 the 21 <sup>st</sup> September, 1989	60.	S.O. No. 516(E) dated the 16 <sup>th</sup> May, 2002

61.	S.O. No. 951(E) dated the 4 <sup>th</sup> September, 2002	91.	S.O. No. 3001(E) dated the 18 <sup>th</sup> November, 2009
62.	S.O. No. 1166(E) dated the 29 <sup>th</sup> September, 2003	92.	S.O. No. 3121(E) dated the 2 <sup>nd</sup> December, 2009
63.	S.O. No. 1180(E) dated the 7 <sup>th</sup> October, 2003	93.	S.O. No. 1523(E) dated the 17 <sup>th</sup> June, 2010
64.	S.O. No. 1181(E) dated the 7 <sup>th</sup> October, 2003	94.	S.O. No. 1517(E) dated the 23 <sup>rd</sup> June, 2010
65.	S.O. No. 1289(E) dated the 4 <sup>th</sup> November, 2003	95.	S.O. No. 1532(E) dated the 25 <sup>th</sup> June, 2010
66.	S.O. No. 131(E) dated the 28 <sup>th</sup> January, 2004	96.	S.O. No. 1605(E) d ated, the 2nd July, 2010
67.	S.O. No. 265(E) dated the 24 <sup>th</sup> February, 2004	97.	S.O. No. 1973(E) dated, the 6th August, 2010
68.	S.O. No. 481(E) dated the 6 <sup>th</sup> April, 2004	98.	S.O. No. 2477(E) dated, the 8th October, 2010
69.	S.O. No. 534(E) dated the 22 <sup>nd</sup> April, 2004	99.	S.O. No. 2971(E) dated, the 16th December, 2010
70.	S.O. No. 744(E) dated the 29 <sup>th</sup> June, 2004	100.	S.O. No. 1451(E), dated the 24th June, 2011
71.	S.O. No. 984(E) dated the 2 <sup>nd</sup> September, 2004	101.	S.O. No. 1604(E), dated the 6th July, 2011
72.	S.O. No. 191(E) dated the 8 <sup>th</sup> February, 2005	102.	S.O. No. 1640(E), dated the 18th July, 2011
73.	S.O. No. 1521(E) dated the 20 <sup>th</sup> October, 2005	103.	S.O. No. 2680(E), dated the 15 <sup>th</sup> November, 2011

74.	SO.No.1679 (E) dated the 25 <sup>th</sup> November, 2005	104.	S.O. No. 2717 (E), dated the 28 <sup>th</sup> November, 2011
75.	S.O. No. 1758 (E) dated the 10 <sup>th</sup> December, 2005	105.	S.O. No. 42 (E), dated the 2 <sup>nd</sup> January, 2012
76.	S.O. No. 540 (E) dated the 13 <sup>th</sup> April, 2006	106.	S.O. No. 82 (E), dated the 14 <sup>th</sup> January, 2012
77.	S.O. No. 1368 (E) dated the 23 <sup>rd</sup> August, 2006	107.	S.O. No. 566 (E), dated the 15 <sup>th</sup> March, 2012
78.	S.O. No. 1472 (E) dated the 11 <sup>th</sup> September, 2006	108.	S.O. No. 565 (E), dated the 16 <sup>th</sup> March, 2012
79.	S.O. No. 1485 (E) dated the 12 <sup>th</sup> September, 2006	109.	S.O. No. 2811(E), dated the 26 <sup>th</sup> November, 2012
80.	S.O. No. 1809 (E) dated the 20 <sup>th</sup> October, 2006	110.	S.O. No. 83(E), dated the 28 <sup>th</sup> December, 2012
81.	S.O. No. 2017 (E) dated the 23 <sup>rd</sup> November, 2006	111.	S.O. No. 2366(E), dated the 6 <sup>th</sup> August, 2013
82.	S.O. No. 33 (E) dated the 11 <sup>th</sup> January, 2007	112.	S.O. No. 1447(E), dated the 30 <sup>th</sup> May, 2014
83.	S.O. No. 1135 (E) dated the 6 <sup>th</sup> July, 2007	113.	S.O. No.1853(E), dated the 8 <sup>th</sup> July, 2014
84.	S.O. No. 1175 (E) dated the 10 <sup>th</sup> July, 2007	114.	S.O. No.2056(E), dated the 25 <sup>th</sup> July, 2014
85.	S.O. No. 1700 (E) dated the 27 <sup>th</sup> September, 2007	115.	To be continued....
86.	S.O. No. 2185 (E) dated the 8 <sup>th</sup> September, 2008		
87.	S.O. No. 2261(E) dated the 24 <sup>th</sup> September, 2008		
88.	S.O. No. 1190(E) dated the 11 <sup>th</sup> May, 2009		
89.	S.O. No. 2217 (E) dated the 27 <sup>th</sup> August, 2009		
90.	S.O. No. 2406(E) dated the 7 <sup>th</sup> September, 2009		